



navneetan



cahat

Model: Horoscope-Matching

Order No: 121725601


पुल्लिंग :	लिंग	: स्त्रीलिंग
30/01/1998 :	जन्म तिथि	: 05/02/2002
शुक्रवार :	दिन	: मंगलवार
घंटे 08:15:00 :	जन्म समय	: 11:13:00 घंटे
घटी 02:16:31 :	जन्म समय(घटी)	: 09:51:35 घटी
India :	देश	: India
Kangra :	स्थान	: Una
32:04:00 उत्तर :	अक्षांश	: 31:28:00 उत्तर
76:16:00 पूर्व :	रेखांश	: 76:19:00 पूर्व
82:30:00 पूर्व :	मध्य रेखांश	: 82:30:00 पूर्व
घंटे -00:24:56 :	स्थानिक संस्कार	: -00:24:44 घंटे
घंटे 00:00:00 :	ग्रीष्म संस्कार	: 00:00:00 घंटे
07:20:23 :	सूर्योदय	: 07:15:13
17:56:21 :	सूर्यास्त	: 18:02:36
23:49:45 :	चित्रपक्षीय अयनांश	: 23:52:55
कुम्भ :	लग्न	: मेष
शनि :	लग्न लग्नाधिपति	: मंगल
कुम्भ :	राशि	: वृश्चिक
शनि :	राशि-स्वामी	: मंगल
शतभिषा :	नक्षत्र	: विशाखा
राहु :	नक्षत्र स्वामी	: गुरु
2 :	चरण	: 4
वरियान :	योग	: वृद्धि
तैतिल :	करण	: तैतिल
सा-सात्विक :	जन्म नामाक्षर	: तो-तोरल
कुम्भ :	सूर्य राशि(पाश्चात्य)	: कुम्भ
शूद्र :	वर्ण	: विप्र
मानव :	वश्य	: कीटक
अश्व :	योनि	: व्याघ्र
राक्षस :	गण	: राक्षस
आद्य :	नाड़ी	: अन्त्य
मेष :	वर्ग	: सर्प

ग्रह अंश एवं विंशोत्तरी

विंशोत्तरी	अंश	राशि	ग्रह	राशि	अंश	विंशोत्तरी
राहु 11वर्ष 6मा 27दि शनि	02:25:52	कुंभ	लग्न	मेष	14:48:41	गुरु 3वर्ष 0मा 27दि बुध
28/08/2025	16:10:17	मक	सूर्य	मक	22:21:24	04/03/2024
27/08/2044	11:25:33	कुंभ	चंद्र	वृश्चि	00:46:16	04/03/2041
शनि 30/08/2028	09:53:39	कुंभ	मंगल	मीन	18:39:32	बुध 31/07/2026
बुध 11/05/2031	00:43:11	मक	बुध व	मक	05:32:38	केतु 29/07/2027
केतु 18/06/2032	04:54:44	कुंभ	गुरु व	मिथु	12:42:53	शुक्र 28/05/2030
शुक्र 19/08/2035	25:34:41	धनु व	शुक्र	मक	27:34:21	सूर्य 04/04/2031
सूर्य 31/07/2036	21:28:00	मीन	शनि व	वृष	14:09:25	चन्द्र 02/09/2032
चन्द्र 01/03/2038	16:54:27	सिंह व	राहु	मिथु	02:04:56	मंगल 31/08/2033
मंगल 10/04/2039	16:54:27	कुंभ व	केतु	धनु	02:04:56	राहु 19/03/2036
राहु 14/02/2042	14:56:59	मक	हर्ष	कुंभ	00:26:53	गुरु 25/06/2038
गुरु 27/08/2044	06:12:30	मक	नेप	मक	14:52:10	शनि 04/03/2041
	13:46:25	वृश्चि	प्लूटो	वृश्चि	23:13:28	

व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट


23:49:45 चित्रपक्षीय अयनांश 23:52:55



अष्टकूट गुण सारिणी

कूट	वर	कन्या	अंक	प्राप्त	दोष	क्षेत्र
वर्ण	शूद्र	विप्र	1	0.00	--	जातीय कर्म
वश्य	मानव	कीटक	2	1.00	--	स्वभाव
तारा	अतिमित्र	सम्पत	3	3.00	--	भाग्य
योनि	अश्व	व्याघ्र	4	1.00	--	यौन विचार
मैत्री	शनि	मंगल	5	0.50	--	आपसी सम्बन्ध
गण	राक्षस	राक्षस	6	6.00	--	सामाजिकता
भकूट	कुम्भ	वृश्चिक	7	7.00	--	जीवन शैली
नाडी	आद्य	अन्त्य	8	8.00	--	स्वास्थ्य/संतान
कुल :			36	26.50		

कुल : 26.5 / 36



अष्टकूट मिलान

दंडमजंदा का वर्ग मेष है तथा cahat का वर्ग सर्प है। इन दोनों वर्गों में परस्पर सम है।

अष्टकूट मिलान के अनुसार दंडमजंदा और cahat का मिलान अत्युत्तम है।

मंगलीक दोष मिलान

दंडमजंदा मंगलीक है क्योंकि मंगल लग्न कुण्डली में प्रथम भाव में स्थित है।

**कुजजीवो समायुक्तो युक्तो व कुजचन्द्रमा ।
न मंगली मंगल राहु योग ।**

यदि मंगल-गुरु या मंगल-राहु या मंगल-चंद्र एक राशि में हों तो मंगली दोष भंग हो जाता है।

क्योंकि मंगल एवं चन्द्र दंडमजंदा कि कुण्डली में एक राशि में हैं अतः मंगलीक दोष प्रभावहीन हो जाता है।

cahat मंगलीक है क्योंकि मंगल लग्न कुण्डली में द्वादश भाव में स्थित है।

**त्रिषट् एकादशे राहु त्रिषट् एकादशे शनिः ।
त्रिषट् एकादशे भौमः सर्वदोषविनाशकृत् ।।**

वर या कन्या की कुण्डली में से एक मंगलीक हो और दूसरे की कुण्डली में 3,6,11 वें भावों में राहु, मंगल या शनि हो तो मंगलीक दोष समाप्त हो जाता है।

क्योंकि राहु cahat कि कुण्डली में तृतीय भाव में स्थित है अतः मंगलीक दोष कट जाता है।

दंडमजंदा तथा cahat में मंगलीक मिलान ठीक है।

निष्कर्ष

अष्टकूट एवं मंगलीक दोष न होने के कारण दोनों का मिलान उत्तम है।

अष्टकूट फलादेश

वर्ण

दंअदममजंद का वर्ण शूद्र है तथा cahat का वर्ण ब्राह्मण है। क्योंकि cahat का वर्ण दंअदममजंद के वर्ण से ऊँचा है जिसके कारण यह अच्छा मिलान नहीं है। जिसके कारण दोनों के बीच हमेशा अहं का टकराव होगा। cahat हमेशा श्रेष्ठता मनोग्रंथि से ग्रसित रहेगी तथा हमेशा स्वयं को पति से अधिक होशियार समझती रहेगी। कन्या की यही श्रेष्ठता का स्व अहसास उसके पति एवं बच्चों के विकास को बाधित कर रहेगा। साथ ही दंअदममजंद के अन्दर हीन भावना घर कर जायेगी।

वश्य

दंअदममजंद का वश्य द्विपद अर्थात् मनुष्य है एवं cahat का वश्य कीट है। अतः यह मिलान अच्छा मिलान नहीं है। फलस्वरूप दंअदममजंद एवं cahat दोनों के बीच हितों का टकराव होता रहेगा साथ ही दोनों के बीच आपसी सहयोग, समझ एवं सामंजस्य का पूर्णतः अभाव बना रहेगा। कभी-कभी दोनों एक-दूसरे के शत्रु भी बन सकते हैं जिससे प्रगति एवं समृद्धि बाधित होती है। दोनों के बीच घमासान चलता रहेगा तथा तनाव एवं संदेह का माहौल कायम हो सकता है।

तारा

दंअदममजंद की तारा अतिमित्र तथा cahat की तारा सम्पत है। अतः दोनों की तारा अनुकूल होने के कारण यह मिलान अति उत्तम मिलान है। यह विवाह वैवाहिक जीवन एवं परिवार के लिए चहुंमुखी समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। साथ ही दोनों एक-दूसरे के लिए काफी भाग्यशाली साबित होंगे। दंअदममजंद हमेशा cahat के साथ मित्रवत व्यवहार करता रहेगा तथा उसे असीम प्रेम एवं प्यार देता रहेगा। इनके बच्चे भी काफी बुद्धिमान, भाग्यशाली, आज्ञाकारी एवं सफल होंगे।

योनि

दंअदममजंद की योनि अश्व है तथा cahat की योनि व्याघ्र है। अर्थात् दोनों की योनि समान नहीं है। इन दोनों योनि के बीच सामान्य वैर है। अतः यह मिलान अच्छा मिलान न होकर बुरा मिलान ही रहेगा। जिसके कारण दोनों की रुचि एवं पसंद नापसंद अलग-अलग ही होंगी। इनके वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन में अक्सर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। कभी-कभी लड़ाई झगड़ा घरेलू हिंसा का रूप भी ले सकता है। लड़ाई झगड़े के कारण पारिवारिक माहौल तनावपूर्ण एवं कलेशपूर्वक ही रहेगा। दोनों कभी कभी एक दूसरे पर हिंसक आक्रमण भी कर सकते हैं। दोनों के बीच झगड़े का कारण बुद्धिमत्ता एवं परस्पर समझदारी की कमी ही हो सकती है। यदि समझदारी और समझबूझ से काम न लिया गया तो कुछ समय अंतराल पर यह स्थिति मुकदमेबाजी तक भी पहुंच सकती है। इस प्रकार परस्पर प्रेम एवं सौहार्द्र की भावना का अभाव ही रहेगा। साथ ही दोनों के बीच अविश्वास की भावना भी रह सकती है।

कभी-कभी धनहानि होने की भी संभावना होगी। अतः यदि दोनों परस्पर समझदारी एवं बुद्धि से काम लें तो स्थिति को सुधारा भी जा सकता है। परस्पर लड़ाई झगड़े और वैचारिक मतभेद रहने के कारण परिवार में सुख समृद्धि का अभाव ही देखने को मिलेगा। इस प्रकार वैवाहिक जीवन संघर्षपूर्ण व क्लेशपूर्वक बीतने की संभावना है अतः सतर्कता बरतें।

मैत्री

अष्टकूट मिलान में ग्रह मैत्री कूट में दंडदममजंद का राशि स्वामी cahat के राशि स्वामी से शत्रु का संबंध रखता है। जबकि cahat का राशि स्वामी दंडदममजंद के राशि स्वामी के साथ सम रहता है। अतः यह मिलान ग्रह मैत्री के विचार से खराब मिलान है। ज्योतिष की दृष्टि से यदि एक साथी का राशि स्वामी दूसरे के लिए शत्रु किंतु दूसरा उसे सम मानता हो तो ऐसा कुंडली मिलान अच्छा नहीं माना जाता है। दोनों के बीच अक्सर लड़ाई-झगड़ा, तनाव, मतभेद, एवं बहसबाजी का भाव बना रह सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यह बहस कभी-कभी हिंसक रूप धारण कर ले। जिससे शारीरिक चोट एवं मुकदमेबाजी के कारण आर्थिक हानि हो सकती है।

गण

दंडदममजंद का गण राक्षस है तथा cahat का गण भी राक्षस है। अर्थात् cahat का गण दंडदममजंद के गण के समान है। अतः यह मिलान अति उत्तम मिलान रहेगा। जिसके कारण दंडदममजंद एवं cahat दोनों के स्वभाव, विचार तथा पसंद-नापसंद एक जैसे होंगे। यद्यपि कि दोनों के स्वभाव क्रूर, निष्ठुर एवं असंवेदनशील होंगे किंतु फिर भी एक-दूसरे के लिए ये अति अनुकूल एवं आदर्श साबित होंगे।

भकूट

दंडदममजंद से cahat की राशि दशम भाव में स्थित है तथा cahat से दंडदममजंद की राशि चतुर्थ भाव में स्थित है जिसके कारण यह मिलान अति उत्तम मिलान है। जिसके कारण दंडदममजंद एक पारिवारिक व्यक्ति होंगे तथा अपनी पत्नी एवं बच्चों समेत परिवार के हर सदस्य की देखभाल करेंगे। उन्हें अपने संबंधियों से ही खुशी प्राप्त होगी तथा उनकी पत्नी सदैव कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी मदद करती रहेंगी। cahat को घर, वाहन, मां का प्यार समेत जीवन में हर सुख एवं खुशी प्राप्त होगी। cahat हमेशा अपने पति की परछाई बनकर सदैव उनकी सहायता करती रहेंगी।

नाड़ी

दंडदममजंद की नाड़ी आद्य है तथा cahat की नाड़ी अन्त्य है। अर्थात् दोनों की नाड़ी समान नहीं है, जो कि अष्टकूट मिलान की दृष्टि से दोष मुक्त है। अर्थात् यह मिलान अति उत्तम मिलान है। इस मिलान में शरीर के दो महत्वपूर्ण अवयवों वात एवं कफ का संतुलन होता है। दंडदममजंद की आद्य नाड़ी तथा cahat की अन्त्य नाड़ी अच्छे स्वास्थ्य, स्वस्थ एवं मजबूत शरीर, दम्पति के आपसी प्रेम एवं समझदारी की द्योतक हैं। जिसके कारण आपकी संतान

स्वस्थ, आज्ञाकारी एवं भाग्यशाली होंगी।



एक्स-35, ओखला फेज-2, नई दिल्ली-110020 फोन:- 011-40541000, 40541020
Web: www.futurepointindia.com, e-mail: mail@futurepointindia.com

मेलापक फलित

स्वभाव

दंडममजंद की जन्म राशि वायुतत्व युक्त कुम्भ तथा cahat की जलतत्व युक्त वृश्चिक राशि है। नैसर्गिक रूप से वायु एवं जलतत्व में असमानता के कारण इनमें स्वभावगत विषमताएं रहेंगी जिससे दाम्पत्य संबंधों में मधुरता नहीं होगी तथा वैवाहिक सुख भी अच्छा नहीं होगा। अतः यह मिलान विशेष अनुकूल नहीं रहेगा।

दंडममजंद की जन्म राशि का स्वामी शनि तथा cahat की राशि का स्वामी मंगल परस्पर सम एवं शत्रुराशियों में स्थित है। अतः इसके प्रभाव से दंडममजंद और cahat के दाम्पत्य संबंधों में विशेष अनुकूलता नहीं होगी तथा परस्पर प्रेम सहयोग तथा सहानुभूति के भाव का भी अभाव रहेगा। अतः सुख दुख में एक दूसरे को सहयोग अल्प ही प्रदान करेंगे। साथ ही एक दूसरे के गुणों की अपेक्षा कमियों पर विशेष ध्यान देंगे जिससे परस्पर कलह विवाद एवं वैमनस्य का भाव रहेगा। अतः दाम्पत्य जीवन में सुख एवं शांति का अभाव रहेगा।

दंडममजंद और cahat की राशियां परस्पर दशम एवं चतुर्थ भाव में पड़ती है शास्त्रानुसार यह शुभ भकूट माना जाता है। इसके प्रभाव से उपरोक्त अशुभ फलों में न्यूनता आएगी तथा शुभ फलों में वृद्धि होगी। अतः एक दूसरे के प्रति प्रेम सहानुभूति एवं अपनत्व के भाव में वृद्धि होगी तथा सुख दुख में एक दूसरे का पूर्ण ध्यान रखेंगे जिससे संबंधों में मधुरता रहेगी तथा वैवाहिक जीवन भी सुख एवं शांति पूर्वक व्यतीत होगा।

दंडममजंद का वश्य मानव तथा cahat का वश्य कीट है। मानव तथा कीट की परस्पर असमानता के कारण इनकी अभिरुचियों में विषमता रहेगी। साथ ही शारीरिक मानसिक एवं भावनात्मक स्तर पर भी आवश्यकताएं भिन्न होंगी। अतः काम संबंधों में एक दूसरे को प्रसन्न तथा सन्तुष्ट करने में असमर्थ होंगे जिससे संबंधों में तनाव का भाव रहेगा।

दंडममजंद का वर्ण शूद्र तथा cahat का वर्ण ब्राह्मण है। अतः इनकी कार्य क्षमता में अंतर रहेगा। दंडममजंद की प्रवृत्ति किसी भी कार्य को करने में रहेगी जबकि cahat शैक्षणिक धार्मिक तथा अन्य कार्यों को करने में तत्पर रहेंगी।

धन

दंडममजंद की तारा अतिमित्र तथा cahat की तारा सम्पत है। अतः इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी तथा इच्छित मात्रा में धन एवं लाभ अर्जित करने में सर्वदा तत्पर होंगे। साथ ही भकूट का इनकी सुदृढ़ आर्थिक स्थिति पर किसी भी प्रकार शुभ या अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन मंगल के प्रभाव से दंडममजंद यदा कदा सामान्य हानि या व्यय से परेशानी की अनुभूति कर सकते हैं परन्तु यह अल्प समय के लिए होगा।

cahat धनाढ्य एवं सौभाग्यशाली महिला होंगी तथा उसके शुभ प्रभाव एवं अपनी योग्यता तथा परिश्रम के बल पर दंडममजंद अपने धन की वृद्धि करने में तत्पर रहेंगे।

लेकिन मंगल के प्रभाव से cahat की प्रवृत्ति अनावश्यक मात्रा में अधिक व्यय करने की होगी तथा विलासमय वस्तुओं पर व्यर्थ में ही व्यय करेंगी। अतः cahat को ऐसी प्रवृत्ति की उपेक्षा करना ही श्रेयष्कर रहेगा।

स्वास्थ्य

दंअदममजंद आद्य तथा cahat अन्य नाड़ी में उत्पन्न हुई हैं। अतः अलग अलग नाड़ी होने के कारण नाड़ी दोष से ये मुक्त रहेंगे परन्तु मंगल के प्रभाव से दोनों को समय समय पर शारीरिक कष्ट की प्राप्ति होती रहेगी। इससे दोनों गुप्त रोग या धातु संबंधी रोगों से परेशान रहेंगे तथा हृदय संबंधी कोई कष्ट भी हो सकता है। दंअदममजंद की रतिक्रिया में शिथिलता रहेगी जबकि cahat की संभोग के प्रति उनके मन में उदासीनता का भाव रहेगा फलतः दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं होगा। अतः इस प्रभाव की न्यूनता के लिए दंअदममजंद और cahat को नियमित रूप से हनुमानजी की उपासना तथा मंगलवार के उपवास करने चाहिए।

संतान

संतति प्राप्ति की दृष्टि से दंअदममजंद और cahat का मिलान उत्तम रहेगा। इसके प्रभाव से उन्हें उचित समय पर संतति की प्राप्ति होगी तथा इसमें अनावश्यक विलम्ब भी नहीं होगा। साथ ही बच्चों के जन्म में भी सामान्य अंतर रहेगा जिससे उनका पालन पोषण उचित ढंग से करने में आसानी रहेगी। इसके अतिरिक्त दंअदममजंद और cahat के पुत्र एवं कन्या संतति की संख्या समान होगी।

प्रसव के विषय में cahat के मन में पहले से ही अनावश्यक भय की अनुभूति रहेगी लेकिन cahat को इस विषय में किसी भी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी चाहिए तथा सामान्य रूप से गर्भावस्था का समय व्यतीत करना चाहिए। प्रसव काल में cahat को प्रसूति या अन्य किसी भी प्रकार की चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तथा सुंदर स्वस्थ एवं आकर्षक बच्चों को जन्म देने में सफल होंगी। साथ ही स्वयं भी स्वस्थ एवं प्रसन्नता की अनुभूति करेंगी।

संतति पक्ष से दंअदममजंद और cahat सन्तुष्ट तथा प्रसन्न रहेंगे तथा बच्चे अपने क्षेत्र में अपनी बुद्धिमता तथा योग्यता से उन्नतिमार्ग पर अग्रसर होंगे। साथ ही व्यवहार कुशलता का गुण भी उनमें विद्यमान रहेगा। माता पिता के प्रति उनका पूर्ण आदर तथा आज्ञापालन का भाव रहेगा तथा उनकी इच्छा के विरुद्ध वे कोई भी कार्य सम्पन्न नहीं करेंगे। इस प्रकार दंअदममजंद और cahat का पारिवारिक जीवन सुख शांति तथा प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होगा।

ससुराल-सुश्री

cahat के अपने सास से संबंध सामान्य ही रहेंगे तथा विशिष्ट मधुरता के भाव की समय समय पर न्यूनता का आभास होगा परन्तु आपसी सामंजस्य से किंचित अनुकूलता इसमें बनाए रखने में दोनों समर्थ रहेंगे। यदा कदा इनके मध्य मतभेद तथा तनाव भी उत्पन्न होगा परन्तु यह क्षणिक होगा एवं गंभीर नहीं होगा। साथ ही cahat सास को अपने माता के समान

सेवा तथा सम्मान प्रदान करेंगी।

अपने विनम्र स्वभाव सामंजस्य की प्रवृत्ति तथा सेवा भाव के कारण ससुर की प्रसन्नता एवं सन्तुष्टि अर्जित करने में समर्थ रहेंगी। लेकिन देवर एवं ननदों से संबंधों में तनाव रहेगा तथा आपस में आलोचना तथा प्रतिद्वन्दिता का भाव विद्यमान रहेगा परन्तु यदि cahat किंचित धैर्य एवं सामंजस्य से कार्य ले तो इनसे संबंधों में मधुरता उत्पन्न हो सकती है तथा वे भी cahat को यथोचित सम्मान एवं सहयोग प्रदान करेंगे।

इस प्रकार सास ससुर का दृष्टि कोण cahat के प्रति सामान्यतया अच्छा रहेगा एवं परिवार के सदस्य के रूप में वे उसे स्वीकार करेंगे।

ससुराल-श्री

दंअदममजंद तथा सास के संबंधों में विशेष मधुरता का भाव नहीं रहेगा तथा आयु में काफी अंतर होने के कारण दोनों के मध्य वैचारिक मतभेद रहेंगे लेकिन इनमें अधिक गंभीरता नहीं रहेगी। यदि दंअदममजंद तथा इनकी सास आपसी सामंजस्य तथा बुद्धिमता से व्यवहार करें तो संबंधों की मधुरता में वृद्धि हो सकती है।

लेकिन ससुर के साथ में दंअदममजंद के संबंध मधुर रहेंगे तथा उनके प्रति मान सम्मान तथा श्रद्धा का भाव रहेगा। साथ ही उनसे पिता के समान ही व्यवहार करेंगे। साथ ही वे भी दंअदममजंद को पुत्रवत स्नेह तथा वात्सल्य प्रदान करेंगे। दंअदममजंद समय समय पर अपने ससुर से आवश्यक तथा बहुमूल्य सलाह तथा निर्देश भी प्राप्त करते रहेंगे परन्तु साले तथा सालियों के साथ में संबंधों में तनाव तथा मतभेद रहेंगे तथा एक दूसरे के प्रति आलोचना तथा प्रतिद्वन्दिता का भाव रहेगा जिससे आपस में स्नेह सहयोग तथा सहानुभूति के भाव में न्यूनता रहेगी।

इस प्रकार सामान्य रूप से ससुरालवालों का दृष्टिकोण दंअदममजंद के प्रति अनुकूल ही रहेगा।